



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 67]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 31, 2017/माघ 11, 1938

No. 67]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 31, 2017/MAGHA 11, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2017

सा.का.नि. 75.(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क विभाग नक्शानवीस (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2013 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क विभाग, नक्शानवीस (समूह 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वित्त मंत्रालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क विभाग, नक्शानवीस (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2013 (इसके पश्चात जिसे उक्त नियम कहा गया है) में नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

“2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके साथ सम्बद्ध वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट के अनुसार होगा।”;

3. उक्त नियमों में, नियम 3 के उप नियम (1) में शब्दों “प्रत्येक आयुक्तालय” के स्थान पर “प्रत्येक ज़ोनल संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण” शब्दों को रखा जाएगा।

4. उक्त नियमों की अनुसूची में, स्तंभ (4) में,-

(क) स्तम्भ शीर्षक के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर” स्तम्भ शीर्षक रखा जाएगा;

(ख) प्रविष्टियों के स्थान पर प्रविष्टियां “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25,500-81,100 रु.)” रखी जाएंगी।

[फा०सं० ए-12018/17/2012-प्रशा.III.ख]

राजपाल सिंह, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल नियम, संख्या सा.का.नि. 677(अ), तारीख 9 अक्टूबर, 2013 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2017

G.S.R. 75(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Finance, Central Excise and Customs, Department, Draftsman (Group ‘C’ Posts) Recruitment Rules, 2013, namely:-

1. (1) These rules shall be called the Ministry of Finance, Central Excise and Customs Department, Draftsman (Group ‘C’ Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Finance, Central Excise and Customs, Department, Draftsman (Group ‘C’ Posts) Recruitment Rules, 2013 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

“2. Number of post, classification, level in pay matrix. – The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.”.

3. In the said rules, in rule 3, in sub-rule (1), for the words “Each Commissionerate”, the words “Each Zonal Cadre Controlling Authority” shall be substituted.

4. In the said rules, in the Schedule, in column (4),-

(a) for the column heading, the column heading “Level in pay matrix” shall be substituted;

(b) for the entries, the entries “Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100)” shall be substituted.

[F.No. A-12018/17/2012-Ad.III.B]

RAJPAL SINGH, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extra-ordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 677(E), dated the 9th October 2013.